

# सुरक्षित लोग, सुरक्षित स्थान

## सड़कों पर हिंसा से सुरक्षा

सड़कें हम सब के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए बनी हैं। काम पर जाने के लिए, छुट्टियाँ मनाने या चाहे बस दुकानों तक जाने के लिए कार चलानी हो, हमारी सड़कें हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा हैं। सड़क का उपयोग करने वाला व्यक्ति होने के नाते, यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सड़कों संबंधी नियमों का पालन करें व सड़क का इस प्रकार उपयोग करें कि वह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हो।

वाहन चलाने के ख़राब तरीके, विलम्ब, या आम ट्रैफ़िक लोगों को परेशान कर सकता है जब आप व अन्य लोग अपने काम के स्थान पर पहुँचना चाहते हैं और जिसका परिणाम होता है आक्रामक व्यवहार। इससे दुर्घटनाएँ, क्रोधपूर्ण या दरिंदे की तरह वाहन चलाना (भयभीत करने वाला वाहन चलाने का तरीका) या यहाँ तक कि हिंसापूर्ण झगड़े हो सकते हैं

यहाँ कुछ आसान तरीके दिए जा रहे हैं जो **हम सब** अपना सकते हैं और अपने को सड़कों पर झगड़ों से बचा सकते हैं।

### सड़क पर अपनी रक्षा करें

- **हमेशा** जब भी आप कहीं जाएँ, तो योजना बनाएँ व अपने को पर्याप्त समय दें।
- **सुनिश्चित करें कि** आप अपने वाहन का रख-रखाव ठीक प्रकार से कर रहे हैं व उसमें ड्राइव करने के लिए काफ़ी पेट्रोल है।
- यदि आप बहुत थके हैं तो **कभी भी** वाहन **न चलाएँ** और जाने से पहले व यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम करें।  
[जब आप थके हों तो अपने पर ऐतबार न करें।](#)

### सड़क पर अन्य लोगों की भी रक्षा करें

- वाहन चलाते समय अपना ध्यान **कभी भी** बटने न दें। कार में अपने फ़ोन को अलग रख दें। [अपने हाथों को फ़ोन से दूर रखें।](#)
- **हमेशा** विनम्र, धैर्यवान बने रहें, बताई गई रफ़्तार सीमा के अंदर ही रहें व रक्षात्मक तरीके से गाड़ी चलाएँ।
- अन्य लोगों से **कभी भी** आक्रामक व्यवहार **न करें** व उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित न करें।

### सड़क पर अपना बचाव करें

- जब भी किसी अन्य ड्राइवर द्वारा आपके साथ झगड़ा किया जाए, तो **हमेशा** अपनी कार में ही रहें। स्थिति को निजी रूप में न लें।
- **कभी भी** अपनी कार के हॉर्न का बहुत अधिक उपयोग **न करें**। हॉर्न एकदम से चेतावनी देने के लिए बनाया गया है न कि चीखने के बदले में उपयोग करने के लिए।
- खतरनाक या आक्रामक तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों के बारे में पुलिस को **हमेशा** बताएँ।

ट्रैफ़िक सुरक्षा से संबंधित अधिक सलाह के लिए कृपया <http://roadsafety.transport.nsw.gov.au>

या फ़ेसबुक पर ट्रैफ़िक हाईवे पेट्रोल कमान्ड से जानकारी लें <https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPE>

जुर्म से सुरक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए देखें [www.police.nsw.gov.au](http://www.police.nsw.gov.au)



Justice



अपातकालीन या जान-तेवा स्थितियों के लिए।



अपातकालीन स्थितियों के लिए।



अपराध संबंधी जानकारी देने के लिए। यह जानकारी बिना नाम बताए दी जा सकती है।